

Transliteration–Telugu

Transliteration as per Modified Harvard-Kyoto (HK) Convention
(including Telugu letters – Short e, Short o) -

a A i I u U
R RR IR IRR
e E ai o O au M (H or :)

(e – short | E – Long | o – short | O – Long)

k kh g gh n/G
c ch j jh n/J (jn – as in jnAna)
T Th D Dh N
t th d dh n
p ph b bh m
y r l L v
S sh s h

nAtha brOvavE-bhairavi

In the Krti ‘nAtha brOvavE’ – rAga bhairavi, SrI tyAgaraja asks the Lord to protect him citing examples.

- P nAtha brOvavE raghu nAtha brOvavE
- C1 sa-lalituD(a)ni munu palikina
vAlmIkula vAkkulu kallal(A)yenA raghu (nAtha)
- C2 ¹bayalu gala muni ²cayamunu jUci
hRdayamu karagaga(n)abhayam(o)sagina³ raghu (nAtha)
- C3 ⁴varamagu nuduTi mungurulanu tolaginci
karuNanu nija bhakta varulanu jUcu raghu (nAtha)
- C4 agaNita ripulaku vagal(o)narinci sva-
nagaramun(E)la vaccu sogasu ⁵jUpu raghu (nAtha)
- C5 bharatuni kani madi karagucu vAni
uramana jErcina karamunu ⁵jUpu raghu (nAtha)
- C6 kala kalamanu mukha kaLa kani pura
bhAmalu ⁶valacaga tana ⁷tallula vale jUcu raghu (nAtha)
- C7 nirupama nirguNa sarasija lOcana
⁸maravaka tyAgarAja ⁹varada ¹⁰SrI raghu (nAtha)

Gist

O Lord raghu nAtha! O Lotus Eyed Lord who is Peerless and who is beyond all qualities! O Bestower of boons to this tyAgarAja!

1. Sage vAlmIki and others have earlier said that You are endowed with gentleness; have those word become false?

2. Looking at the ascetics living in the country-side (without protection), You felt pity and bestowed them freedom from fear.

3. You look at true devotees with compassion, by clearing the curls of hair falling on Your beautiful forehead.

4. Please show me the elegance of coming back to rule own country, after making Your enemies grieve.

5. Please show those hands with which You embraced bharata, after seeing him and taking pity on him.

6. When the women of the town were enamoured beholding the lustre of Your charming face, You treated them as Your mothers.

7. Please protect me; please do not forget me (OR) please protect me without forgetting.

Word-by-word Meaning

P O Lord (nAtha)! Please protect (brOvavE) me. O Lord raghu nAtha! Please protect (brOvavE) me.

C1 Have those words (vAkkulu) of sage vAlmIki and others (vAlmIkula), who earlier (munu) said (palikina) that (ani) You are endowed with gentleness (sa-lalituDu) (sa-lalituDani), become (AyenA) false (kallalu) (kallalAyenA)?

O Lord raghu nAtha! please protect me.

C2 O Lord raghu nAtha who, feeling pity (hRdayamu karagaga) (literally as heart melted) looking (jUci) at the ascetics (muni cayamunu) living (gala) (literally found) in the country-side (bayalu) (without protection),

bestowed (osagina) them freedom from fear (abhayamu) (karagaganabhayamosagina)!

please protect me.

C3 O Lord raghu nAtha who looks (jUcu) at blessed (varulanu) true (nija) devotees (bhakta) with compassion (karuNanu),

by clearing (tolaginci) (literally removing) the curls of hair (mungurulanu) falling on the beautiful (varamagu) forehead (nuduTi)!

please protect me.

C4 O Lord raghu nAtha! Please show (jUpu) me the elegance (sogasu) of coming back (vaccu) (literally come) to rule (Ela) own (sva) country (nagaramunu) (svanagaramunEla) (literally town),

after making innumerable (agaNita) enemies (ripulaku) grieve (vagalu onarinci) (vagalonarinci);

please protect me.

C5 O Lord raghu nAtha! Please show (jUpu) those hands (karamunu) with which You embraced (uramuna jErcina) bharata (bharatuni),

after seeing (kani) him (vAni) and taking pity (madi karagucu) (literally mind melting) on him;

please protect me.

C6 O Lord raghu nAtha who, when the women (bhAmalu) of the town (pura) were enamoured (valacaga) beholding (kani) the lustre (kaLa) of Your charming (kala kalamanu) face (mukha), considers (jUcu) (literally looks at) them as (vale) Your (tana) mothers (tallula)!

Please protect me.

C7 O Lotus (sarasiya) Eyed (lOcana) Lord who is Peerless (nirupama) and who is beyond all qualities (nirguNa)!

Please do not forget (maravaka) me, O Bestower of boons (varada) to this tyAgarAja! O Lord raghu nAtha! Please protect me. (OR) O Lord raghu nAtha -

bestower of boons (varada) to this tyAgarAja! Please protect me without forgetting (maravaka).

Notes –

Variations -

caraNas 5 and 6 are interchanged in some books.

¹ – bayalu – bhayamunu : bayalu - is appropriate.

² – cayamunu –cayamula.

⁴ – varamagu –varamulu : varamagu - is appropriate.

⁶ – valacaga –valacaganu.

⁷ – tallula –sutula. ‘talli’ means ‘mother’ and ‘suta’ means ‘daughter’. As these two words are quite distinct, this is considered as an interpolation. The original kRti would contain either the word ‘talli’ or ‘suta’. The other word has been deliberately brought into circulation.

⁸ – maravaka –maruvaka.

⁹ – varada –vara nuta.

¹⁰ – SrI raghu(nAtha) –SrI rAma raghu(nAtha).

Reference –

³ – Abhayamosagina – Please refer to vAlmIiki rAmAyaNa, AraNya kANDa, Chapter 6.

Comments –

⁵ – jUpu – this word may be translated as ‘one who shows’ or ‘show’. However, in the present context, ‘show’ seems to be appropriate.

Devanagari

प. नाथ ब्रोववे रघु नाथ ब्रोववे

च1. सललितु(ड)नि मुनु पलिकिन

वाल्मीकुल वाक्कुलु कल(ला)येना रघु (नाथ)

च2. बयलु गल मुनि चयमुनु जूचि

हृदयमु करगग(न)भय(मो)सगिन रघु (नाथ)

च3. वरमगु नुदुटि मुङ्गरुलनु तोलगिञ्चि

करुणनु निज भक्त वरुलनु जुचु रघु (नाथ)

च4. अगणित रिपुलकु वग(लो)नरिञ्चि स्व-

नगरमु(ने)ल वञ्चु सोगसु जूपु रघु (नाथ)

च5. भरतुनि कनि मदि करगुचु वानि

उरमुन जेर्चिन करमुनु जूपु रघु (नाथ)

च6. कल कलमनु मुख कळ कनि पुर

भामलु वलचग तन तल्लुल वले जूचु रघु (नाथ)

च7. निरुपम निर्गुण सरसिज लोचन

मरवक त्यागराज वरद श्री रघु (नाथ)

English with Special Characters

pa. nātha brōvavē raghu nātha brōvavē

ca1. salalitu(ḍa)ni munu palikina

vālmīkula vākkulu kalla(lā)yenā raghu (nātha)

ca2. bayalu gala muni cayamunu jūci

hṛdayamu karagaga(na)bhaya(mo)sagina raghu (nātha)

ca3. varamagu nuduṭi muṅgurulanu tolagiñci

karuṇanu nija bhakta varulanu jucu raghu (nātha)

ca4. agaṇita ripulaku vaga(lo)nariñci sva-

nagaramu(nē)la vaccu sogasu jūpu raghu (nātha)

ca5. bharatuni kani madi karagucu vāni

uramuna jērcina karamunu jūpu raghu (nātha)

ca6. kala kalamanu mukha kaḷa kani pura

bhāmalu valacaga tana tallula vale jūcu raghu (nātha)

ca7. nirupama nirguṇa sarasija lōcana

maravaka tyāgarāja varada śrī raghu (nātha)

Telugu

ప. నాథ బ్రోవవే రఘు నాథ బ్రోవవే

చ1. సలలితు(డ)ని మును పలికిన

వాల్మీకుల వాక్కులు కల్ల(లా)యెనా రఘు (నాథ)

చ2. బయలు గల ముని చయమును జూచి

హృదయము కరగగ(న)భయ(మొ)సగిన రఘు (నాథ)

చ3. వరమగు నుదుటి ముఱ్ఱురులను తొలగిజ్జి

కరుణను నిజ భక్త వరులను జూచు రఘు (నాథ)

చ4. అగణిత రిపులకు వగ(లొ)నరిజ్జి స్వ-

నగరము(నే)ల వచ్చు సొగసు జూపు రఘు (నాథ)

చ5. భరతుని కని మది కరగుచు వాని

ఉరమున జేర్చిన కరమును జూపు రఘు (నాథ)

చ6. కల కలమను ముఖ కళ కని పుర

భామలు వలచగ తన తల్లుల వలె జూచు రఘు (నాథ)

చ7. నిరుపమ నిర్గుణ సరసిజ లోచన

మరవక ఆఱగరాజ వరద శ్రీ రఘు (నాథ)

Tamil

- ప. నాథ² ప్³రోవవే రకు⁴ నాథ² ప్³రోవవే
స1. స-లలితు(డ³)ని మును పలికిన
వాల్మీకుల వాక్కులు కల్ల(లా)యెనా రకు⁴ (నాథ²)
స2. ప³యలు క³ల ముని సయమును జు³సి
హ³కుత³యమ కరక³క³(న)ప⁴య(మో)సకి³న రకు⁴ (నాథ²)
స3. వరమకు³ నుతు³డి ముంగు³రులను తొలకి³న్సి
కరుణను నిజ ప⁴క్త వరులను జు³సి రకు⁴ (నాథ²)
స4. అక³ణితి నిపులకు వక³(లొ)ననిన్సి స్వ-
నక³రమ(నే)ల వశ్శ సొక³సు జు³పు రకు⁴ (నాథ²)
స5. ప⁴రతుని కని మతి³ కరకు³శ వాని
ఁరమన జేర్చిన కరమును జు³పు రకు⁴ (నాథ²)
స6. కల కలమను ముక² కల కని పుర
పా⁴మలు వలశక³ తన తల్లల వలె జు³సి రకు⁴ (నాథ²)
స7. నిరుపమ నిర్కు³ణ సరసిజ లోశన
మరవక త్పాక³రాజ వరత³ పు³ రకు⁴ (నాథ²)

నాథా! என்னைக் காப்பாய்; இரகுநாதா! என்னைக் காப்பாய்

1. మెన్మెయనవనెన, మున్పు పకర్నత,
వాల్మీకి మతలానోరిన్ సొఱకన్ పొయ్యనాతో?
ఇరకునాథా! (என்னைக்) காப்பாய్
2. తిరన్త వెలెయిల్ ఁగ్గ మునివరకలెక్ కన్డు,
మనమురుకి, అవరకలకు అపయమలిత్త
ఇరకునాథా! என்னைக் కాப்பాయ్
3. ఁజిలన నెఱ్ఱి (ముడిశ్)కరులకలె యకర్ఱి,
కరుణెయిడన్, ఁన్మెయన నెఱ్ఱొన్డరకలె
నోక్కమ్ ఇరకునాథా! என்னைக் కాப்பాయ్
4. ఁన్ఱిరన్త పకెవరుక్కు తుయరెయలిత్తు, తనతు
నకరత్తిణెయన వరమ్ ఁయిలిణెక్ కాన్పిప్పాయ్;
ఇరకునాథా! என்னைக் కాப்பాయ్
5. పరతనెక్ కన్డు, ఁగ్గమురుకి, అవనె
మార్పోడణెత్త అక్కరకలెక్ కాన్పిప్పాయ్;
ఇరకునాథా! என்னைக் కాப்பాయ్
6. కల కలవెఱుమ్ ముకక్ కలెయెక్ కన్డు, నకర్ప
పెన్డిర్ కామర, అవరెత్ తమతు తాయరక నోక్కమ్
ఇరకునాథా! (என்னைக்) కాப்பాయ్
7. ఁవమెయఱ్ఱ, కుణంగలఱ్ఱ, తామరెక్కన్ఱా!

ತಿಯಾಕರಾಸನುಕ್ಕರುಳ್ವೋನೇ!

ಇರಗುನಾತಾ! ಮಠವಾತು (ಁನ್ನಁನಕ್) ಕಾಪ್ಪಾಯ್

Kannada

ಪ. ನಾಥ ಬೋವವೇ ರಘು ನಾಥ ಬೋವವೇ

ಚ೦. ಸಲಲಿತು(ಡ)ನಿ ಮುನು ಪಲಿಕಿನ

ವಾಲ್ಮೀಕುಲ ವಾಕ್ಯುಲು ಕಲ್ಲ(ಲಾ)ಯೆನಾ ರಘು (ನಾಥ)

ಚ೨. ಬಯಲು ಗಲ ಮುನಿ ಚಯಮುನು ಜೂಚಿ

ಹೃದಯಮು ಕರಗಗ(ನ)ಭಯ(ಮೊ)ಸಗಿನ ರಘು (ನಾಥ)

ಚ೩. ವರಮಗು ನುದುಟಿ ಮುಜ್ಜುರುಲನು ತೋಲಗಿಜ್ಜಿ

ಕರುಣನು ನಿಜ ಭಕ್ತ ವರುಲನು ಜುಚು ರಘು (ನಾಥ)

ಚ೪. ಅಗಣಿತ ರಿಪುಲಕು ವಗ(ಲೊ)ನರಿಜ್ಜಿ ಸ್ವ-

ನಗರಮು(ನೇ)ಲ ವಚ್ಚು ಸೊಗಸು ಜೂಪು ರಘು (ನಾಥ)

ಚ೫. ಭರತುನಿ ಕನಿ ಮದಿ ಕರಗುಚು ವಾನಿ

ಉರಮುನ ಜೇರ್ಜಿನ ಕರಮುನು ಜೂಪು ರಘು (ನಾಥ)

ಚ೬. ಕಲ ಕಲಮನು ಮುಖ ಕಳ ಕನಿ ಪುರ

ಭಾಮಲು ವಲಚಗ ತನ ತಲ್ಲುಲ ವಲಿ ಜೂಚು ರಘು (ನಾಥ)

ಚ೭. ನಿರುಪಮ ನಿರುಣ ಸರಸಿಜ ಲೋಚನ

ಮರವಕ ತ್ಯಾಗರಾಜ ವರದ ಶ್ರೀ ರಘು (ನಾಥ)

Malayalam

೪. ನಾಥ ಬೋವವೇ ರಘು ನಾಥ ಬೋವವೇ

೪೧. ಸಲಲಿತು(ೞ)ನಿ ಮುನು ಪಲಿಕಿನ

ವಾಲ್ಮೀಕುಲ ವಾಕ್ಯುಲು ಕಲ್ಲ(ಲಾ)ಯೆನಾ ರಘು (ನಾಥ)

೪೨. ಬಯಲು ಗಲ ಮುನಿ ಚಯಮುನು ಜೂಚಿ

ಹೃದಯಮು ಕರಗಗ(ನ)ಭಯ(ಮೊ)ಸಗಿನ ರಘು (ನಾಥ)

೪೩. ವರಮಗು ನುದುಟಿ ಮುಜ್ಜುರುಲನು ತೋಲಗಿಜ್ಜಿ

ಕರುಣನು ನಿಜ ಭಕ್ತ ವರುಲನು ಜುಚು ರಘು (ನಾಥ)

೪೪. ಅಗಣಿತ ರಿಪುಲಕು ವಗ(ಲೊ)ನರಿಜ್ಜಿ ಸ್ವ-

ನಗರಮು(ನೇ)ಲ ವಚ್ಚು ಸೊಗಸು ಜೂಪು ರಘು (ನಾಥ)

೪೫. ಭರತುನಿ ಕನಿ ಮದಿ ಕರಗುಚು ವಾನಿ

ಉರಮುನ ಜೇರ್ಜಿನ ಕರಮುನು ಜೂಪು ರಘು (ನಾಥ)

೪೬. ಕಲ ಕಲಮನು ಮುಖ ಕಳ ಕನಿ ಪುರ

ಭಾಮಲು ವಲಚಗ ತನ ತಲ್ಲುಲ ವಲಿ ಜೂಚು ರಘು (ನಾಥ)

ഭാമലു വലചഗ തന തല്ലുല വലെ ജുചു രഘു (നാഥ)
ച7. നിരുപമ നിർഗുണ സരസിജ ലോചന
മരവക ത്യാഗരാജ വരദ ശ്രീ രഘു (നാഥ)

Assamese

- പ. നാথ രോരരെ റധു നാথ രോരരെ
- ച1. സലലിതു(ড)നി മൂനു പലിకిന
 രാലീകുല രാങ്കുലു കല്ല(ലാ)യേനാ റധു (നാഥ)
- ച2. വയലു ഗല മൂനി ചയമൂനു ജൂടി
 ഹൃദയമു കരഗഗ(ന)ഭയ(മോ)സഗിന റധു (നാഥ)
- ച3. രവമഗു നൂടുടി മുസുരൂലനു തോലഗിഷിഃ
 കരൂണു നിജ ഭക്ത രരൂലനു ജൂചു റധു (നാഥ)
- ച4. അഗ്നിത വിപുലകു രഗ(ലോ)നവിഷിഃ സ്വ-
 നഗരമൂ(നേ)ല രരൂ സോഗസു ജൂപു റധു (നാഥ)
- ച5. ഭവതൂനി കനി മദി കരഗുചു രാനി
 ഉരമൂന ജേടിന കരമൂനു ജൂപു റധു (നാഥ)
- ച6. കല കലമനു മുഖ കല കനി പൂർ
 ഭാമലു രലചഗ തന തല്ലുല രലെ ജൂചു റധു (നാഥ)
- ച7. നിരൂപമ നിർഗുണ സരസിജ ലോചന
 മരവക അഗഭാജ രവദ ശ്രീ റധു (നാഥ)

Bengali

- പ. നാথ രോവരെ റധു നാথ രോവരെ
- ച1. സലലിതു(ഡ)നി മൂനു പലിకిന
 വാലീകുല വാങ്കുലു കല്ല(ലാ)യേനാ റധു (നാഥ)
- ച2. വയലു ഗല മൂനി ചയമൂനു ജൂടി
 ഹൃദയമു കരഗഗ(ന)ഭയ(മോ)സഗിന റധു (നാഥ)
- ച3. വരമഗു നൂടുടി മുസുരൂലനു തോലഗിഷിഃ

କରୁଣନୁ ନିଜ ଡଞ୍ଜ ବରୁଳନୁ ଜୁଚୁ ରଘୁ (ନାଥ)

ଚ୪. ଅଗଣିତ ରିପୁଳକୁ ବଗ(ଲୋ)ନରିଷିଃ ସ୍ବ-

ନଗରମୁ(ନେ)ଲ ବଢୁ ସୋଗସୁ ଜୁପୁ ରଘୁ (ନାଥ)

ଚ୫. ଭରତୁନି କନି ମଦି କରଗୁଚୁ ବାନି

ଓରମୁନ ଜେଟିନ କରମୁନୁ ଜୁପୁ ରଘୁ (ନାଥ)

ଚ୬. କଳ କଳମନୁ ମୁଖ କଳ କନି ପୁର

ଭାମଲୁ ବଳଚଗ ତନ ତଲ୍ଲୁ ବଳେ ଜୁଚୁ ରଘୁ (ନାଥ)

ଚ୭. ନିରୁପମ ନିର୍ଗୁଣ ସରସିଜ ଲୋଚନ

ମରବକ ଆଗରାଜ ବରଦ ଶ୍ରୀ ରଘୁ (ନାଥ)

Gujarati

୫. ନାଥ ଓରାବେ ରଘୁ ନାଥ ଓରାବେ

୫୧. ସଲେଲିତୁ(ଟ)ନି ମୁନ୍ତୁ ପଲିଞ୍ଜିନ

ବାଲ୍ମୀକିଲ ବାଞ୍ଛୁଲୁ ଡଲେ(ଲୋ)ର୍ଯ୍ୟନା ରଘୁ (ନାଥ)

୫୨. ଉଧଳୁ ଗଲେ ମୁନି ଧ୍ୟୟମୁନ୍ତୁ ଗୁଧି

ହୃଦୟମୁ କରଗା(ନ)ଭୟ(ମା)ସାଗିନ ରଘୁ (ନାଥ)

୫୩. ବରମଗୁ ଗୁଢୁଟି ମୁଢୁଗୁରୁଲନ୍ତୁ ତାଁଲଗିଞ୍ଜି

କରାଣନ୍ତୁ ନିଏ ଭକତ ବରୁଲନ୍ତୁ ଗୁଧୁ ରଘୁ (ନାଥ)

୫୪. ଅଗାଢ଼ିତ ରିପୁଳକୁ ବଗ(ଲୋ)ନରିଷିଃ ସ୍ବ-

ନଗରମୁ(ନେ)ଲ ବଢୁ ସୋଗସୁ ଜୁପୁ ରଘୁ (ନାଥ)

୫୫. ଭରତୁନି କନି ମଦି କରଗୁଚୁ ବାନି

ଓରମୁନ ଶ୍ଵେତ୍ତିନ କରମୁନ୍ତୁ ଜୁପୁ ରଘୁ (ନାଥ)

୫୬. କଳ କଳମନୁ ମୁଖ କଳ କନି ପୁର

ଭାମଲୁ ବଳଚଗ ତନ ତଲ୍ଲୁ ବଳେ ଜୁଚୁ ରଘୁ (ନାଥ)

୫୭. ନିରୁପମ ନିର୍ଗୁଣ ସରସିଜ ଲୋଚନ

ମରବକ ଧ୍ୟାଗରାଜ ବରଦ ଶ୍ରୀ ରଘୁ (ନାଥ)

Oriya

୧୦. ନାଥ ବ୍ରୋଞ୍ଜେ ରଘୁ ନାଥ ବ୍ରୋଞ୍ଜେ

୧୧. ସଲ୍ଲିତୁ(ତ)ନି ମୁନ୍ତୁ ପଲିଜିନ

ଞ୍ଜାଲୁ ଞ୍ଜାଲୁ କଲ୍ଲ(ଲୋ)ରୋନା ରଘୁ (ନାଥ)

୧୨. ବରଲୁ ଗଲ ମୁନି ବରଗୁଚୁ ବାନି

ହୃଦୟମ୍ବୁ କରଗଗ(ନ)ଭୟ(ମୋ)ସଗିନ ରଘୁ (ନାଥ)

୧୩. ଓରମରୁ ନୁହୁଟି ମୁଞ୍ଚୁରୁଲୁନୁ ତୋଲଗିଣି

କରୁଣନୁ ନିଜ ଭକ୍ତ ଓରୁଲୁନୁ ଭୁରୁ ରଘୁ (ନାଥ)

୧୪. ଅଗଣିତ ରିପୁଲକୁ ଓଗ(ଲୋ)ନରିଣି ସ୍ୱ-

ନଗରମୁ(ନେ)ଲ ଓଜୁ ସୋଗସୁ ଭୁପୁ ରଘୁ (ନାଥ)

୧୫. ଭରତୁନି କନି ମଦି କରଗୁରୁ ଓନି

ଭରମୁନ ଜେଟିନ କରମୁନୁ ଭୁପୁ ରଘୁ (ନାଥ)

୧୬. କଲ କଲମନୁ ମୁଖ କଲ କନି ପୁର

ଭାମଲୁ ଓଲଚଗ ତନ ତଲୁଲ ଓଲେ ଭୁରୁ ରଘୁ (ନାଥ)

୧୭. ନିରୁପମ ନିର୍ଗୁଣ ସରସିଜ ଲୋଚନ

ମରଓକ ତ୍ୟାଗରାଜ ଓରଦ ଗ୍ରୀ ରଘୁ (ନାଥ)

Punjabi

୧. ନାଥ ସୁବେ ରଘୁ ନାଥ ସୁବେ

୨. ସଲଲିତ(ଡ)ନି ମୁନୁ ପଲିକିନ

ବାଲମୀକିଲ ବାକିଲୁ କା(ଲା)ଜେନା ରଘୁ (ନାଥ)

୩. ସଜଳୁ ଗଲ ମୁନି ଚଜମୁନୁ ଜୁଚି

ହିନ୍ଦୟମୁ କରଗଗ(ନ)ଭୟ(ମୋ)ସଗିନ ରଘୁ (ନାଥ)

୪. ବରମଗୁ ନୁହୁଟି ମୁଞ୍ଚୁରୁଲୁନୁ ତୋଲଗିଣି

କରୁଣନୁ ନିଜ ଭକ୍ତ ବରୁଲୁନୁ ଜୁଚୁ ରଘୁ (ନାଥ)

୫. ଅଗଣିତ ରିପୁଲକୁ ବଗ(ଲୋ)ନରିଣି ସୁ-

ନଗରମୁ(ନେ)ଲ ବାଚୁ ସୋଗସୁ ଜୁପୁ ରଘୁ (ନାଥ)

୬. ଭରତୁନି କନି ମଦି କରଗୁରୁ ବାନି

ଭରମୁନ ଜେଟିନ କରମୁନୁ ଜୁପୁ ରଘୁ (ନାଥ)

୭. କଲ କଲମନୁ ମୁଖ କଲ କନି ପୁର

ଭାମଲୁ ବାଲଚଗ ତନ ତଲୁଲ ବାଲେ ଜୁଚୁ ରଘୁ (ନାଥ)

ਚੜ੍ਹ. ਨਿਰੁਪਮ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਸਿਜ ਲੋਚਨ

ਮਰਵਕ ਤਯਾਗਰਾਜ ਵਰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁ (ਨਾਥ)